

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल दरभंगा-2

Mail ID:-rwdeedbg2@gmail.com

पत्रांक 2487(अनु०) /

दिनांक 19/12/2024 /

प्रेषक,

ई० अवधेश कुमार,  
कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्र०, दरभंगा-2

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,  
(3054-एम०आर०)  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय:- शीर्ष-3054 (नई अनुरक्षण नीति-2018) अन्तर्गत पूर्ण किये गये पथों में आवंटन माँग हेतु अधियाचना पत्र समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में गैर योजना मद शीर्ष-3054 (नई अनुरक्षण नीति-2018) अन्तर्गत पूर्ण किये गये पथ में आवंटन माँग हेतु राशि की अधियाचना विहित प्रपत्र तैयार कर समर्पित की जा रही है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि रु० 84.20234 लाख (कुल चौरासी लाख बीस हजार दो सौ चौतीस) मात्र रुपये का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। ताकि संवेदक को भुगतान किया जा सके।

अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्र०, दरभंगा-2

19/12/24

**me of Works Division:-** RWD Works Division Darbhanga-2

1. Signed Hard Copy and Soft Copy (in excel) of recorded IRI is enclosed.
2. Up to date Physical Progress has been uploaded in MIS

PRYD Works Division Darbhanga-2

19.12.24

FORM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (1) below Rule- 150)  
Form of Utilisation Certificate up to the month of Dec-2024  
Head 3054 Account for M.R (New Maintenance Policy-2018) Yojna. Year 2024-25


PIU Darbhanga-2



Sl. No	Name of Scheme	Sanction No. & Date with Amount (in Rs. Lacs)	Amount Received (in Rs. Lacs)	Particulars
1	Maintenance Account for Head 3054 Account for MR R (New Maintenance Policy-2018) Yojna	Additional CEO-cum- Secretary Patna. Letter No-125 We Date- 29.11.2024	Rs. 3892.59785	Certified that out of Rs 3892.59785 lacs received during the years 2024-25 in favour of Ex. Engineer RWD work division Darbhanga-2 a sum of Rs 3626.66831 lacs has been utilized for the purpose of Maintenance Account for Head 3054 M.R (New Maintenance Policy-2018) Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs 265.92954 lacs remaining unutilized at the end of the period under.
	Total		3892.59785	

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants in aid was sanctioned have been duly fulfilled/ are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of Checks exercised :-

- Works have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Constructions materials have tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conduction by the Assistant Engineer/ Executive Engineer
- All other codal formalities have been observed.


  
D. A. O.  
R.W.D. Works Division  
Darbhanga-2


  
Executive engineer,  
R.W.D. Works Division  
Darbhanga-2  
  
Referee  
19.12.24


कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल दरभंगा-2

**प्रमाण-पत्र**

विभागीय आदेशानुसार सत्यापित किया जाता है कि शीर्ष 3054 (नई अनुरक्षण नीति-2018) अन्तर्गत PWD Sadhwara to Sahani Tola तक पथ मरम्मत कार्य की जाँच 100 प्रतिशत संबंधित कनीय अभियंता, 50 प्रतिशत संबंधित सहायक अभियंता एवं 10 प्रतिशत कार्यपालक अभियंता द्वारा कर लिया गया है।

  
कनीय अभियंता,

  
सहायक अभियंता

  
कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्र0, दरभंगा-2



NAME OF THE ROAD - PWD Sadhwara to Sahani Tola.

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	CATEGORY ROAD	LENGTH - 1.49 K.M		Event
									Latitude	Longitude	
18/12/24	9:34:14	70	0.1	270	20.2	2700	3268 G		26.11565	85.763569	Normal
18/12/24	9:34:50	70	0.1	320	20.3	3200	3238 G		26.11615	85.764393	Normal
18/12/24	9:35:0	70	0.1	290	15.1	2900	3398 G		26.11689	85.765167	Normal
18/12/24	9:35:0	70	0.1	290	10.1	2900	3031 G		26.11724	85.7656	Normal
18/12/24	9:35:0	70	0.1	280	10.1	2800	3359 G		26.11817	85.766749	Normal
18/12/24	9:35:23	70	0.1	340	10.1	3400	3521 G		26.11833	85.766959	Normal
18/12/24	9:35:23	70	0.1	330	20.2	3300	3365 G		26.11871	85.767775	Normal
18/12/24	9:35:23	70	0.1	280	10.1	2800	3192 G		26.11824	85.768816	Normal
18/12/24	9:35:23	70	0.1	290	20.2	2900	3122 G		26.11759	85.770428	Normal
18/12/24	9:35:23	70	0.1	270	20.3	2700	3067 G		26.11713	85.77145	Normal
18/12/24	9:36:0	70	0.1	290	20.2	2900	3748 G		26.11631	85.771267	Normal
18/12/24	9:36:0	70	0.1	280	15.2	2800	3177 G		26.11575	85.77116	Normal
18/12/24	9:36:0	70	0.1	260	20.2	2600	2980 G		26.11501	85.771069	Normal
18/12/24	9:36:0	70	0.1	310	10.1	3100	3232 G		26.11482	85.771058	Normal
18/12/24	9:36:0	70	0.1	290	20.2	2900	3126 G		26.11424	85.771071	Normal
					AVERAGE IRI	3254.933					

$$Y = 0 * X^2 + 0.827 * X + 574.3$$

$$X = 0$$

$$Y = 574$$

(R) RURAL ROAD  
Good Average Poor  
4000 4001-5000 >5001

*[Signature]*  
19/12/24  
AS

*[Signature]*  
19/12/24  
AS

*[Signature]*  
19/12/24  
Executive Engineer  
RWD. (M) Division  
Darbhanga




Name of Customer : Jai Shankar Kumar  
 Name of Work/Road : PWD Sadhwara to Sahani Tola  
 Lab Job number :                       
 Date : 18-12-2024  
 Section No. : 70

Test Date : 18-12-2024  
 Machine No : 477  
 Start S No :                       
 Start E No :                       
 Weather :                       
 Start Location :                       
 End Location :                       
 Road Name : PWD Sadhwara to Sahani Tola  
 Road Type : (R) RURAL ROAD  
 Side :                       
 UIV Range : 1980 To 5000 Interval 1000 mm/km  
 Dist Range : 0 To 1.6 0.1 - 1000 m  
 Equation :  $Y = 0 * X^2 + 0.827 * X + 574.3$

Print      Generate Report and Graph      Redraw Graph      Map View

File : C:\Users\joni\Desktop\shu\Jai Shankar Kumar\18120937.xls. Section No. : 70. Eqn :  $Y = 0 * X^2 + 0.827 * X +$   
 Name of Customer : Jai Shankar Kumar, Name of Work/Road : PWD Sadhwara to Sahani Tola. Lab Job number :



Jaiwshy. 19/12/24  
 Nick 19/12/24  
 EXECUTIVE ENGINEER  
 PWD (N) DIVISION